

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अगस्त 2017—श्रावण 25, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017 (श्रावण 25, 1939)

क्र. -वि.स.-विधान-2017.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2017 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 16 अगस्त, 2017

ओम प्रकाश कोहली
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.